



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 444] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 8, 1976/आश्विन 16, 1898

No. 444] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 8, 1976/ASVINA 16, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed  
as a separate compilation

MINISTRY OF LABOUR

NOTIFICATIONS

*New Delhi, the 5th October 1976*

S.O. 662(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Equal Remuneration Act, 1976 (25 of 1976), the Central Government hereby appoints the 8th day of October, 1976, as the date on which the said Act shall come into force in respect of employments in the manufacture of chemicals and chemical products (except products of petroleum and coal) specified in the Schedule annexed hereto.

## THE SCHEDULE

*Manufacture of Chemicals and chemical products (except products of petroleum and coal).*

1. Manufacture of basic industrial organic and inorganic chemicals and gases such as acids alkalies and their salts; gases like acetylene, oxygen, nitrogen etc.
2. Manufacture of fertilisers and pesticides.
3. Manufacture of paints, varnishes and lacquers.
4. Manufacture of drugs and medicines.

(1911)

5. Manufacture of perfumes, cosmetics, lotions, hair dressings tooth pastes, soap in any form, synthetic detergents, shampoos, shaving products, cleansers washing and scouring products and other toilet preparations.
6. Manufacture of inedible oils.
7. Manufacture of turpentine, synthetic resins, plastic materials and synthetic fibres like nylon, terylene except glass.
8. Manufacture of Matches.
9. Manufacture of explosives and ammunition and fire works.
10. Manufacture of chemical products not covered by any other entry (including photo-chemicals, sensitised films and paper).

[No. S-42013/9/76-WC.]

### श्रम मंत्रालय

### अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 5 अक्टूबर 1976

क्र० प्र० 662 (अ).—केन्द्रीय सरकार तत्काल पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 (1976 का 25) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 8 अक्टूबर, 1976 को उस तारीख के रूप में नियत करती जिसको उक्त अधिनियम इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट रासायन और रासायन उत्पादों (पेट्रोलियम और कोयला के उत्पादों को छोड़कर) के विनिर्माण में नियोजनों के संबंध में प्रवृत्त होगा।

### अनुसूची

रासायन और रासायन उत्पादों पेट्रोलियम तथा कोयला उत्पादों को छोड़कर का विनिर्माण

1. मूल औद्योगिक आर्गेनिक और इनआर्गेनिक रासायन और गैसें जैसा कि अम्ल, क्षार और इनके लक्षण, गैसें जैसी असेटिलीन, आक्सीजन, नाइट्रोजन आदि का विनिर्माण।
2. उर्वरक और पेस्टीसाइड का विनिर्माण।
3. पेंट, वार्निश और लैकर का विनिर्माण।
4. भेषज और औषधियों का विनिर्माण।
5. इत्र, कॉस्मेटिक्स, लेशन, हेयर ड्रेसिंग, दूध पेस्ट, किसी किस्म का साबुन, कृत्रिम शोधक, शैम्पू, हजामती उत्पाद, परिभार्जक, धुलाई और परिमार्जन उत्पाद और अन्य प्रसाधन वस्तुओं का विनिर्माण।
6. अखाद्य तेलों का विनिर्माण।
7. तारपीन, कृत्रिम रेजिन, प्लास्टिक पदार्थ और कृत्रिम धागे जैसे निसोन रेशों को छोड़कर टेरिलीन का विनिर्माण।
8. माक्स का विनिर्माण।
9. विस्फोटकी और गोला बारूद तथा आतिशबाजी की साधनों का विनिर्माण।
10. किसी अन्य प्रविष्टि के अन्तर्गत न आने वाले रासायन उत्पादों (फोटो रासायन, सेंसिटाइज्ड फिल्म और फागज सहित) का विनिर्माण।

[सं० एस-42013/9/76-डब्ल्यू०सी०]

**S.O. 663(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the Equal Remuneration Act, 1976 (25 of 1976), the Central Government hereby specifies the employments in the manufacture of chemicals and chemical products (except products of petroleum and coal) mentioned in the Schedule annexed hereto, for the purpose of constitution of one or more Advisory Committees by the appropriate Government to advise it with regard to the extent to which women may be employed in such employments.

#### THE SCHEDULE

*Manufacture of chemicals and chemical products (except products of petroleum and coal).*

1. Manufacture of basic industrial organic and inorganic chemicals and gases such as acids, alkalies and their salts; gases like acetylene, oxygen, nitrogen etc.
2. Manufacture of fertilisers and pesticides.
3. Manufacture of paints, varnishes and lacquers.
4. Manufacture of drugs and medicines.
5. Manufacture of perfumes, cosmetics, lotions, hair dressings, tooth pastes, soap in any form, synthetic detergents, shampoos, shaving products, cleansers, washing and scouring products and other toilet preparations.
6. Manufacture of inedible oils.
7. Manufacture of turpentine, synthetic resins, plastic materials and synthetic fibres like nylon, terylene except glass.
8. Manufacture of matches.
9. Manufacture of explosives and ammunition and fire works.
10. Manufacture of chemical products not covered by any other entry (including photo-chemicals, sensitised films and paper).

[No. S-42013/9/76-WC.]

T. S. SANKARAN, Addl. Secy.

**का० प्रा० 663 (अ).**—केन्द्रीय सरकार समान वेतन अधिनियम, 1976 (1976 का 25) की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इससे उपाबद्ध अनुसूची में उल्लिखित रासायन और रासायन उत्पादों (पेट्रोलियम तथा कोयले के उत्पादों को छोड़कर) के विनिर्माण में नियोजनों को उचित सरकार द्वारा एक या इससे अधिक सलाहकार समितियों गठित करने के प्रयोजन के लिए निर्दिष्ट करती है, जो इस सम्बन्ध में सलाह देगी कि ऐसे नियोजनों में किस सीमा तक महिलाओं की नियोजित किया जाए।

#### अनुसूची

**रासायन और रासायन उत्पादों (पेट्रोलियम तथा कोयला उत्पादों को छोड़कर) का विनिर्माण**

1. मूल औद्योगिक आर्गेनिक और इन्टरमिडियेट रासायन और गैस जैसी कि अम्ल, क्षार और इनके लवण, जैसे असेटिलीन, अक्सीजन, नाइट्रोजन आदि का विनिर्माण।
2. उर्वरक और पेस्टीसाइड का विनिर्माण।
3. पेंट, वार्निश और लेकर का विनिर्माण।
4. सेबज और ओषधियाँ का विनिर्माण।
5. इत्र, कॉस्मेटिकल, लोशन, हेयर क्रेमिंग, टूथ पेस्ट, किसी किसम का साबुन, कृत्रिम मोधक, शैम्पू, हमाजती उत्पाद, परिमार्जक, घुलन और परिमार्जन उत्पाद और अन्य प्रसाधन वस्तुओं का विनिर्माण।

6. श्रृङ्खलायुक्त तंतुओं का विनिर्माण ।
7. तारपीन, कृत्रिम, रेजिन, प्लास्टिक पदार्थ और कृत्रिम घागे जैसे निलोन रेशों को छोड़कर टेक्सिलोन का विनिर्माण ।
8. माचिस का विनिर्माण ।
9. विस्फोटकों और गोला बारूद तथा आतिशबाजी की सामग्रियों का विनिर्माण ।
10. किसी अन्य प्रविष्टि के अन्तर्गत न आने वाली रासायनिक उत्पादों (फोटो रासायन, सेलुलॉइड फिल्म और कागज सहित) का विनिर्माण ।

[ ३० एन-42013/9/76-डब्ल्यू० सी ]

टी० एन० शंकरन, अपर सचिव ।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मन्त्रालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित तथा  
नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1976

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD,  
NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1976